

प्रेस नोट दिनांक-26.10.2020

(1). आज दिनांक 26.10.2020 को जिलाधिकारी चित्रकूट श्री शेषमणि पाण्डेय एवं पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अंकित मित्तल द्वारा मूर्ति विसर्जन स्थल बनकट एवं गढ़ीवा तालाब का निरीक्षण किया गया। डियूटी पर उपस्थित कर्मचारीगणों को आवश्यक दिशा निर्देश देते हुये कहा गया कि कोई मूर्ति विसर्जन के दौरान कोई गहराई में न जाने पाये तथा नाव व गोताखोर विसर्जन के दौरान मौके पर उपस्थित रहे।

इस मौके पर उपजिलाधिकारी सदर श्री रामप्रकाश , क्षेत्राधिकारी नगर श्री रजनीश कुमार यादव, ईओ नगर पालिका श्री नरेन्द्र मौहन मिश्र, पीआरओ श्री वीरेन्द्र त्रिपाठी एवं अन्य अधिकारी/कर्मचारीगण उपस्थित रहे।

(2). आज दिनांक 26.10.2020 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अंकित मित्तल द्वारा पुलिस लाइन्स में जिला नियंत्रण-कक्ष, आरओआईपी डायल 112 कार्यालय, सेन्ट्रल पुलिस कैन्टीन एवं जीडी कार्यालय के सामने निर्माणाधीन टीम सेड का आकस्मिक निरीक्षण किया गया।

नियंत्रण-कक्ष के निरीक्षण के दौरान महोदय द्वारा डियूटी रजिस्टर चैक किया गया, आरओआईपी डायल 112 कार्यालय के निरीक्षण के दौरान डियूटी रजिस्टर चैक किया गया तथा निर्देशित किया गया कि डायल 112 की गाड़ियों को रूटीन चैक कर गाड़ियों को ट्रेस करते रहे कि गाड़ियां अपने निर्धारित प्वाइंट पर हैं या नहीं। कोविड-19 के दृष्टिगत कार्यालयों में साफ-सफाई हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये। सेन्ट्रल पुलिस कैन्टीन के निरीक्षण के दौरान कैन्टीन प्रभारी को निर्देशित किया गया कि सामान को जल्दी व्यवस्थित कर लिया जाये जिससे शीघ्र ही कैन्टीन का उद्घाटन करवाया जा सके। जीडी कार्यालय के सामने निर्माणाधीन टीम सेड का निर्माण कार्य शीघ्र पूर्ण करवाने हेतु प्रतिसार निरीक्षक पुलिस लाइन्स को निर्देशित किया गया।

इस दौरान प्रतिसार निरीक्षक श्री सुमेर सिंह, पीआरओ श्री वीरेन्द्र त्रिपाठी एवं अन्य अधिकारी/कर्मचारीगण उपस्थित रहे।

(3). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्री रामआश्रय यादव निरीक्षक अपराध थाना कोतवाली कर्वी तथा उनकी टीम द्वारा मु0अ0सं0 542/2020 धारा 376डी/343/328 भादवि0 के वांछित अभियुक्त राजेश साहू पुत्र शारदा प्रसाद निवासी रामनगर थाना रैपुरा चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तारी करने वाली टीम:-

1. श्री रामआश्रय यादव निरीक्षक अपराध थाना कोतवाली कर्वी
2. आरक्षी जलील अहमद

(4). उ0प्र0 शासन द्वारा नारी सुरक्षा, नारी सम्मान एवं महिला कल्याण व बाल विकास के लिए चलाये जा रहे महाअभियान मिशन शक्ति के तहत पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में आज दिनांक-26.10.2020 समस्त थानों की एण्टी रोमियो टीमों द्वारा कस्बे एवं विभिन्न ग्रामों के दुर्गा पण्डालों, कस्बे के बाजारों, कोचिंग सेंट्रों में तथा महिला थाना की एण्टी रोमियो टीम द्वारा कस्बा भरतूकप में जाकर महिलाओं/बालिकाओं को वूमन पावर लाइन 1090, महिला हेल्पलाइन 181, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076, पुलिस आपातकालीन सेवा 112, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, स्वास्थ्य सेवा 102, एम्बुलेंस सेवा 108 एवं अपने-अपने थाना के सीयूजी नम्बर के बारे में विस्तृत जानकारी देकर जागरूक किया। महिलाओं एवं बालिकाओं से वार्ता कर उनके अन्दर के आत्मविश्वास को बढ़ाया गया एवं महिला अधिकारों के सम्बन्ध में अवगत कराया गया। जागरूकता गोष्ठी में सभी से उनकी समस्याओं के बारे में पूछा गया।

इसी क्रम में प्रभारी निरीक्षक मऊ श्री सुभाषचन्द्र चौरसिया के मार्गदर्शन में थाना मऊ की एण्टी रोमियो टीम प्रभारी महिला उ0नि0 श्रीमती अमृता सिंह के नेतृत्व में टीम द्वारा ग्राम पूरब पताई, पश्चिम पताई, बरियारी कलां, बरहा कोटरा, परदवां, टिकरा में जाकर 05 वर्षीय महिला उत्पीडन एवं उससे सम्बन्धित प्रतिवादीगणों से पूछताछ की गयी एवं पीडिताओं से मिलकर मिशन शक्ति अभियान के सम्बन्ध में बताया गया तथा भयमुक्त वातावरण हेतु पुलिस की

मौजूदगी का एहसास कराया गया तथा बताया गया कि किसी भी प्रकार की समस्या पर वूमेन पावर लाइन 1090, महिला हेल्पलाइन 181, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076, पुलिस आपातकालीन सेवा 112, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, स्वास्थ्य सेवा 102, एम्बुलेंस सेवा 108 एवं अपने-अपने थाना के सीयूजी नम्बर पर सम्पर्क कर अपनी समस्या बतायें।

(5). पुलिस अधीक्षक जनपद चित्रकूट के निर्देशन में अवैध शराब के निर्माण व बिक्री की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में चित्रकूट पुलिस द्वारा 03 अभियुक्तों से 40 लीटर अवैध महुआ निर्मित देशी शराब बरामद कर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया।

1). प्रभारी निरीक्षक श्री अरुण कुमार पाठक कोतवाली कर्वी के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री प्रवीण सिंह तथा उनकी टीम द्वारा अभियुक्त राममिलन हरजन पुत्र देवीदयाल निवासी लक्ष्मणपुरी थाना कर्वी को 20 लीटर अवैध देशी महुआ निर्मित शराब के साथ गिरफ्तार किया गया अभियुक्त के विरुद्ध थाना कोतवाली कर्वी में मु0अ0सं0 552/2020 धारा 60 आबकारी अधि0 पंजीकृत किया गया।

2). प्रभारी निरीक्षक श्री अरुण कुमार पाठक कोतवाली कर्वी के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री अमित कुमार चौहान तथा उनकी टीम द्वारा अभियुक्त देशराज पुत्र मेवालाल निवासी कालूपुर पाही थाना कोतवाली कर्वी को 10 लीटर अवैध देशी महुआ निर्मित शराब के साथ गिरफ्तार किया गया अभियुक्त के विरुद्ध थाना कोतवाली कर्वी में मु0अ0सं0 553/2020 धारा 60 आबकारी अधि0 पंजीकृत किया गया।

3). प्रभारी निरीक्षक श्री दीनदयाल सिंह थाना बहिलपुरवा के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री शेषनाथ सिंह तथा उनकी टीम द्वारा अभियुक्त सुखबु पुत्र देशराज केवट निवासी वार्ड न0-5 लोसरिया नयागांव सतना उ0प्र0 को 10 लीटर अवैध देशी महुआ निर्मित शराब के साथ गिरफ्तार किया गया अभियुक्त के विरुद्ध थाना बहिलपुरवा में मु0अ0सं0 46/2020 धारा 60 आबकारी अधि0 पंजीकृत किया गया।